



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 1 मार्च, 2014 / 10 फाल्गुन, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

DEPARTMENT OF PRINTING & STATIONERY

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 14th February, 2014

No Mudran (B)10-53/2010.—In the English version of Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Section Holder (Composing), Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial Service Recruitment and Promotion Rules, 2012 , notified vide this Department Notification of even number dated 29-12-2012, and published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 19-2-2013, in

the third line of the fourth proviso below Col. No. 6, for the words, "initial of such", the word "initial" shall be substituted.

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secretary (P&S).

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 फरवरी, 2014

संख्या मुद्रण (बी) 10 -53/2010.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 29-12-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल, (अक्षरयोजन), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, सहायक अनुभागपाल, (अक्षरयोजन), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति, (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध "क" का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग सहायक अनुभागपाल, (अक्षरयोजन), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त" नियम कहा गया है) के उपाबन्ध 'क' में :—

(i) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों में "सरकारी मुद्रणालय/आई0एस0ओ0" शब्दों और चिन्ह के स्थान पर, "सरकारी मुद्रणालय/भारतीय मानक संगठन" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

(ii) "उक्त" नियमों के स्तम्भ संख्या 15-क

(VII)(ड) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।"

3. **उपाबन्ध "ख" का संशोधन.**—उक्त नियमों के उपाबन्ध 'ख' में विद्यमान निबन्धन और शर्तें संख्या 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।"

आदेश द्वारा,
(मनीषा नंदा)
प्रधान सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No: Mudran (B)10-53/2010 dated 14-2-2014 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF PRINTING & STATIONERY

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th February, 2014

No. Mudran (B)10-53/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department **Assistant Section Holder (Composing), Class-III** (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2012, notified vide Notification of even number dated 29 -12-2012 .

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Assistant Section Holder (Composing), Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion (Ist Amendment) Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure A.—In Annexure “A” to the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department Assistant Section Holder (Composing), Class-III (Non-Gazetted), Non-Ministerial Services, Rules 2012 (herein after referred to as the said rules);

(1) In the Existing provisions against Col. No. 7 of said rules for the words and sign "Government Press /ISO" the words and sign "Government Press/Indian Standard Organisation" shall be substituted.

(2) for the existing provisions against the Col No.15-A VII (e) of said rules, the following shall be substituted namely :—

“An official appointed on contract basis who has completed **three** years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis, wherever required on administrative grounds” .

3. Amendment of Annexure "B".— In Annexure “B” of the said Rules, for the existing terms and condition No. 6 following shall be substituted, namely;

“An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds” .

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secretary (P&S).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla- 2, the 24th February, 2014*

No. Shram (B) 2-10/98 (Estt.).—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and with prior consultation of H. P. Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote Sh. Subhash Pathania Statistical Assistant of the Labour & Employment Department to the post of Law Officer, Class-II, (Gazetted) in the pay band of ₹ 10300-34800 + ₹ 4400/- Grade Pay (Revised), on regular basis, with effect from the assumption of charge of the post, in the Dte. of Labour & Employment.

2. The above officers shall remain on probation for a period of two years.
3. The above officer can exercise option for fixation of pay under FR-22 within one month from the date of assuming charge of the post.
4. The above promoted Statistical Assistant is directed to report for duty at his new place of posting within ten days. The promotion shall take place on joining at new place of posting. No extension in joining period will be allowed in any case.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab.& Emp.).

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla- 2, the 24th February, 2014*

No. Shram (B) 3-1/2006 (Estt.) L.O.Vol.II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee and with prior consultation of H. P. Public Service Commission, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to promote the following Labour Inspector of the Labour & Employment Department to the post of Labour Officer, Class-II, (Gazetted) in the pay band of ₹ 10300-34800 + ₹ 4400/- Grade Pay (Revised), on regular basis, with effect from the assumption of charge of the post:-

1. Sh. Pyare Lal, Labour Inspector, o/o Labour Inspector, Sunder Nagar
2. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to order the posting of above Labour Officer at the place shown against his name:-

Sr.No.	Name	Place of Posting
1.	Sh. Pyare Lal	Labour Office, Shimla (against vacant Post)

3. The above officers shall remain on probation for a period of two years.

4. The above officer can exercise option for fixation of pay under FR-22 within one month from the date of assuming charge of the post.

5. The above promoted Labour Officer is directed to report for duty at his new place of posting within ten days. The promotion shall take place on joining at new place of posting. No extension in joining period will be allowed in any case.

6. The above promotion will be subject to the final outcome of C.W.P.No.138/2013 titled as Dinu Ram v/s State of H.P. & Others.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab.& Emp.).

**In the Court of Shri Malok Singh, Sub-Divisional Magistrate, Salooni-Dalhousie,
District Chamba, Himachal Pradesh**

Shri Shiv Kumar s/o Shri Dev Raj, r/o Village Kharira, P. O. Sherpur, Tehsil Dalhousie,
District Chamba (H. P.) . . Applicant.

Versus

General public

Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Shri Shiv Kumar s/o Shri Dev Raj, r/o Village Kharira, P. O. Sherpur, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his daughter namely Anchal Thakur *i.e.* on 10-4-2008 for entry in the record of concerned Gram Panchayat Sherpur.

Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/claim regarding the registration of date of birth of his daughter in the concerned Gram Panchayat Sherpur, they may file their claim/objections on or before 18-3-2014 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Sherpur for registration.

Given today 17-2-2014 under my signature and seal of this Court.

Seal.

MALOK SINGH,
Sub-Divisional Magistrate,
Salooni-Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

**In the Court of Shri Malok Singh, Sub-Divisional Magistrate, Salooni-Dalhousie,
District Chamba, Himachal Pradesh**

Shri Gandharav Singh s/o Shri Sabo Ram, r/o Village Khaddi, P. O. Belli, Tehsil Dalhousie,
District Chamba (H. P.) . . Applicant.

Versus

General public

Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Gandharav Singh s/o Shri Sabo Ram, r/o Village Khaddi, P. O. Belli, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of his date of birth *i.e.* on 5-5-1990 for entry in the record of concerned Gram Panchayat Belli thereof.

Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/claim regarding the registration of his date of birth in the concerned Gram Panchayat Belli, they may file their claim/objections on or before 18-3-2014 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Belli for registration.

Given today 17-2-2014 under my signature and seal of this Court.

Seal.

MALOK SINGH,
*Sub-Divisional Magistrate,
Salooni-Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Shri Malok Singh, Sub-Divisional Magistrate, Salooni-Dalhousie,
District Chamba, Himachal Pradesh**

Smt. Ranjeeta w/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Kandla, P. O. Surangani, Tehsil Salooni,
District Chamba (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General public

Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Smt. Ranjeeta w/o Shri Rakesh Kumar, r/o Village Kandla, P. O. Surangani, Tehsil Salooni, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of her daughter Mannat *i.e.* on 20-5-2009 for entry in the record of concerned Gram Panchayat, Bayana thereof.

Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/claim regarding the registration of date of birth of her daughter in the concerned Gram Panchayat Bayana, they may file their claim/objections on or before 18-3-2014 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Bayana for registration.

Given today 17-2-2014 under my signature and seal of this Court.

Seal.

MALOK SINGH,
*Sub-Divisional Magistrate,
Salooni-Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.*

ब अदालत श्री हेम चन्द वर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

केस नं० : 03/T/2014/Misc.

तारीख पेशी : 20-3-2014

श्री अताश राणा पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी महाल रिहड़ी, मौजा व डा० थिल, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री अताश राणा पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी महाल रिहड़ी, मौजा व डा० थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम उक्त महाल के राजस्व अभिलेख में विवेक कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत थिल के अभिलेख, पैनकार्ड, दसवीं के प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड में मेरा नाम अताश राणा पुत्र श्री होशियार सिंह दर्ज है। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व अभिलेख महाल रिहड़ी में उसका नाम विवेक कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह के बजाए विवेक कुमार उपनाम अताश राणा पुत्र श्री होशियार सिंह दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-3-2014 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा अताश राणा पुत्र श्री होशियार सिंह, निवासी महाल रिहड़ी, मौजा व डा० थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) का नाम राजस्व अभिलेख महाल रिहड़ी में विवेक कुमार पुत्र श्री होशियार सिंह के बजाए विवेक कुमार उपनाम अताश राणा पुत्र श्री होशियार सिंह दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-2-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हेम चन्द वर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Sharwan Manta (H.A.S.), Collector, Sub-Division, Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh**

Case No. 40/10 of 2010 (Rev. Appeal)

Instituted on : 30-8-2010
Date of hearing : 10-3-2014

Jeewan Singh etc.

Versus

Vinod Kumar etc.

NOTICE :

Respondent No. 8-Shri Gurdev Singh s/o Shri Arjun Singh, 9-LRs of late Shri Hardayal Singh, (a)-Shri Tapender Singh, (b)-Shri Jasbeer Singh, (c)-Shri Jagjeet Singh ss/o Shri Hardayal Singh, (d)-Smt. Pritam Kaur wd/o Shri Hardayal Singh, 10-Shri Khushal Singh s/o of Shri Kishan Singh, 11-Shri Sunder Singh s/o Shri Rattan Singh, 12-LRs of late Shri Kapoor Singh

(a) Shri Harpreet Singh, (b)-Shri Joginder Singh both ss/o Shri Harman Singh, the predeceased s/o Shri Kapoor Singh residents of Village Shubhkhera, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.), 13-LRs of late Shri Nand Singh, (d)-Shri Jhujar Singh s/o late Shri Nand Singh, (e) Smt. Hazur Kaur w/o Shri Darshan Singh, r/o Village Taruwalla, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.), (f)-Smt. Ravinder Kaur w/o Shri Avtar Singh, r/o Taruwalla, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.), (g) LRs of late Gurmeet Kaur (i) Shri Gurdeep Singh (ii) Shri Pradeep Singh both resident of Village Bhungarni, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H. P.), 14-Smt. Bimla Devi d/o Shri Nand Lal, 15-Shri Brij Mohan s/o Shri Nand Lal, 16-Shri Navdeep Rajender Singh s/o Shri Jaswant Singh, 17-Smt. Gurpreet Kaur, 18-Smt. Manpreet Kaur both ds/o Shri Paramjeet Singh, 19-Shri Gurvinder Singh, 20-Shri Karan Singh both ss/o Shri Paramjeet Singh, 21-Smt. Harpreet Kaur wd/o Shri Paramjeet Singh, all residents of Village Shubhkhera, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H. P.), No. 36-LRs of late Shri Banta Singh s/o Shri Prem Singh (a)-Gurdeep Singh, (b)-Shri Joginder Singh, (c)-Shri Baldev Singh, (d)-Smt. Kaushalya Devi, (e)-Shri Kuldeep Singh, (f)-Shri Nirmal Singh and (g)-Shri Harjinder Singh, all sons and daughters of Shri Banta Singh, r/o Village Fatehpur, P.O. Tanda, Tehsil Doiwalla, District Dehradun (UK), R. No. 38-Shri Niranjan Singh s/o Shri Prem Singh, 41-Mohinder Singh s/o Shri Prem Singh, r/o Village Fatehpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.), 44-Shri Charan Singh, 47-Dalbir Singh, 48-Shri Harjeet Singh ss/o Shri Kapoor Singh, 49-Satvinder Kaur d/o Shri Kapoor Singh, 50-Smt. Hardev Kaur wd/o Shri Kapoor Singh, 51- Shri Kulwant Singh, 52-Shri Jagmohan Singh, 53-Smt. Harvinder Kaur, 54-Shri Amrit Singh sons and daughter of Shri Avtar Singh, 55-Smt. Kashmir Kaur d/o Shri Avtar Singh, 56-Smt. Balbir Kaur wd/o Shri Avtar Singh, 57-Shri Gurdayal Singh, 58-Shri Charat Singh ss/o Shri Dasonda Singh, 59-Smt. Jeet Kaur wd/o Shri Kirpal Singh, 60-Shri Gulzar Singh, 61-Shri Sucha Singh 62-Shri Taran Singh, 63-Shri Bachan Singh, 64-Shri Fojja Singh, 65-LRs of late Shri Inder Singh s/o Musdi, (a) Shri Dara Singh, (b) Shri Gurmit Singh, (c) Shri Manjeet Singh, (d)- Shri Hardy Singh and (e)-Shri Narayain Singh, 66-Shri Baksish Singh, 67-Shri Onkar Singh, 68-Shri Mohan Singh ss/o of Shri Sunder Singh, 69-Smt. Prakash Kaur, 70-Smt. Guddi both d/o Shri Sunder Singh, 71-Smt. Uttam Kaur wd/o Shri Sunder Singh all residents of Village Doiwalla, Tehsil Dehradun, District Dehradun UK, 72-Shri Achru, 73. Shri Uttam, 74. Shri Mana, 75-Shri Bachna all ss/o Shri Dethu, r/o Village Hatwanpur, District Ambala, Haryana, 76-Smt. Pretam Kaur wd/o Shri Lekh Ram and 77-Shri Sis Ram s/o Shri Ram Ditta, r/o Village Ropar, District Ropar, Punjab.

Whereas, it has been proved to the satisfaction of the court that the above noted respondents cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation is hereby issued against them and they should appear before this court personally or through their counsel on 10-3-2014 at 10.00 A.M. failing which *ex parte* proceedings shall be taken against them.

Given under my hand and seal of the Court on 13-2-2014.

Seal.

SHARWAN MANTA,
Collector, Sub-Division, Paonta Sahib,
District Sirmaur, Himachal Pradesh.

**Before Shri Baldev Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh**

Case No. 3/2014

Date of Institution : 22-2-2014

Date of decision/ Pending for 26-3-2014

Shri Om Parkash son of Late Shri Jeet Ram, resident of Village Sannah, P. O Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant.

Versus

General public

.. Respondents.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Om Parkash son of Late Shri Jeet Ram, resident of Village Sannah, P. O Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his son namely Subham Kashyap born on 21-12-2010 at his home Village Sannah, P. O Kuthar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not registered in the records of Gram Panchayat Ganguri, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth and Death Registration, Gram Panchayat Ganguri, Tehsil Kasauli, for entering the same in the birth and death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Subham Kashyap son of applicant, may submit their objections in writing in this court on or before 26-3-2014 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of February, 2014.

Seal.

BALDEV SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

**Before Shri Baldev Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan,
Himachal Pradesh**

Case No. 4/2014 Date of Institution : 22-2-2014 Date of decision/ Pending for 26-3-2014

Smt Lata wife of Shri Mohan Lal, resident of Village and P. O Kot, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh .. Applicant.

Versus

General public

.. Respondents.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt Lata wife of Shri Mohan Lal, resident of Village and P. O. Kot, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her two sons namely Parvesh and Bhupinder born on 22-9-2009 and 18-12-2008 respectively at her home Village Kot, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but their date of birth could not registered in the records of Gram Panchayat Kot, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Birth and Death Registration, Gram Panchayat Kot, Tehsil Kasauli, for entering the same in the birth and death records.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Parvesh and Bhupinder both sons of Shri Mohan Lal, may submit their objections in writing in this court on or before 26-3-2014 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 22nd day of February, 2014.

Seal.

BALDEV SHARMA,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.*